

Passion Reading in Hindi

प्रभु येशु का दुखभोग (योहन 18:1 - 19:42)

C: Commentator J: Jesus CR: Crowd M: Man W: Woman

C	सन्त योहन के अनुसार प्रभु येशु का दुखभोग। येशु अपने शिष्यों के साथ केद्रोन नाले के उस पार गये। वहाँ एक बारी थी। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ उस में प्रवेश किया। उनके विश्वासघाती यूदस को भी वह जगह मालूम थी, क्योंकि येशु अक्सर अपने शिष्यों के साथ वहाँ गये थे। इसलिये यूदस पलटन और महायाजकों तथा फ़रीसियों के भेजे हुये प्यादों के साथ वहाँ आ पहुँचा। वे लोग लालटेनें मशालें और हथियार लिये थे। येशु, यह जान कर कि मुझ पर क्या-क्या बीतेगी आगे बढे और उन से बोले,
J	"किसे ढूढते हो?"
C	उन्होंने उत्तर दिया,
CR	"येशु नाजरी को"।
C	येशु ने उन से कहा,
J	"मैं वही हूँ"।
C	वहाँ उनका विश्वासघाती यूदस भी उन लोगों के साथ खडा था। जब येशु ने उन से कहा, 'मैं वही हूँ' तो वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पडे। येशु ने उन से फिर पूछा
J	"किसे ढूढते हो?"
C	वे बोले,
CR	"येशु नाजरी को"।
C	इस पर येशु ने कहा,
J	"मैं तुम लोगों से कह चुका हूँ कि मैं वही हूँ। यदि तुम मुझे ढूढते हो तो इन्हें जाने दो।"
C	यह इसलिये हुआ कि उनका यह कथन पूरा हो जाये- तूने मुझ को जिन्हें सौँपा, मैंने उन में से एक का भी सर्वनाश नहीं होने दिया। उस समय सिमोन पेत्रुस ने अपनी तलवार खींच ली और प्रधानयाजक के नौकर पर चलाकर उसका दाहिना कान उडा दिया। उस नौकर का नाम मलखुस था। येशु ने पेत्रुस से कहा,
J	"तलवार म्यान में कर लो। जो प्याला पिता ने मुझे दिया है क्या मैं उसे नहीं पिऊँ?"
C	तब पलटन, कप्तान और यहूदियों के प्यादों ने येशु को पकड कर बाँध लिया। वे उन्हें पहले अन्नस के यहाँ ले गये; क्योंकि वह उस वर्ष के प्रधानयाजक कैफस का ससुर था। यह वही कैफस था जिसने यहूदियों को यह परामर्श दिया था- अच्छा यही है कि राष्ट्र के लिये एक ही मनुष्य मरे। सिमोन पेत्रुस और एक दूसरा शिष्य येशु के पीछे-पीछे चले। यह शिष्य प्रधानयाजक का परिचित था और येशु के साथ प्रधानयाजक के प्रांगण में गया, किन्तु पेत्रुस फाटक के पास बाहर खडा रहा। इसलिये वह दूसरा शिष्य जो प्रधानयाजक का परिचित था, फिर बाहर गया और द्वारपाली से कहकर पेत्रुस को भीतर ले आया। द्वारपाली ने पेत्रुस से कहा,
W	"कहीं तुम भी तो उस मनुष्य के शिष्य नहीं हो?"

C	उसने उत्तर दिया,
M	"नहीं हूँ।
C	जाड़े के कारण नौकर और प्यादे आग सुलगा कर ताप रहे थे। पेत्रुस भी उनके साथ आग तापता रहा। प्रधानयाजक ने येसु से उनके शिष्यों और उनकी शिक्षा के विषय में पूछा। येसु ने उत्तर दिया,
J	"मैं संसार के सामने प्रकट रूप से बोला हूँ। मैंने सदा सभागृह और मन्दिर में जहाँ सब यहूदी एकत्र हुआ करते हैं, शिक्षा दी है। मैंने गुप्त रूप से कुछ नहीं कहा। यह आप मुझ से क्यों पूछते हैं? उन से पूछिये जिन्होंने मेरी शिक्षा सुनी है। वे जानते हैं कि मैंने क्या-क्या कहा।"
C	इस पर पास खड़े प्यादों में से एक ने येसु को थप्पड़ मार कर कहा,
M	"तुम प्रधानयाजक को इस तरह जवाब देते हो?"
C	येसु ने उस से कहा,
J	"यदि मैंने गलत कहा, तो गलती बता दो और यदि ठीक कहा तो, मुझे क्यों मारते हो?"
C	इसके बाद अन्नस ने बाँधे हुये येसु को प्रधानयाजक कैफस के पास भेजा। सिमोन पेत्रुस उस समय आग ताप रहा था। कुछ लोगों ने उस से कहा,
CR	"कहीं तुम भी तो उसके शिष्य नहीं हो?"
C	उसने अस्वीकार करते हुये कहा
M	"नहीं हूँ।"
C	प्रधानयाजक का एक नौकर उस व्यक्ति का सम्बन्धी था जिसका कान पेत्रुस ने उडा दिया था। उसने कहा
M	"क्या मैंने तुम को उसके साथ बारी में नहीं देखा था?"
C	पेत्रुस ने फिर अस्वीकार किया और उसी क्षण मुर्गे ने बाँग दी। तब वे येसु को कैफस के यहाँ से राज्य पाल के भवन ले गये। अब भोर हो गया था। वे भवन के अन्दर इसलिये नहीं गये कि अशुद्ध न हो जायें, बल्कि पास्का का मेमना खा सकें। पिलातुस बाहर आकर उन से मिला और बोला,
M	"आप लोग इस मनुष्य पर कौन सा अभियोग लगाते हैं?"
C	उन्होंने उत्तर दिया,
CR	"यदि यह कुकर्मी नहीं होता, तो हमने इसे आपके हवाले नहीं किया होता।"
C	पिलातुस ने उन से कहा,
M	"आप लोग इसे ले जाइए और अपनी संहिता के अनुसार इसका न्याय कीजिये।"
C	यहूदियों ने उत्तर दिया,
CR	"हमें किसी को प्राणदण्ड देने का अधिकार नहीं है।"
C	यह इसलिये हुआ कि येसु का वह कथन पूरा हो जाये, जिसके द्वारा उन्होंने संकेत किया था कि उनकी मृत्यु किस प्रकार की होगी। तब पिलातुस ने फिर भवन में जा कर येसु को बुला भेजा और उन से कहा,
M	"क्या तुम यहूदियों के राजा हो?"
C	येसु ने उत्तर दिया
J	"क्या आप यह अपनी ओर से कहते हैं या दूसरों ने आप से मेरे विषय में यह कहा है?"
C	पिलातुस ने कहा,

M	"क्या मैं यहूदी हूँ? तुम्हारे ही लोगों और महायाजकों ने तुम्हें मेरे हवाले किया। तुमने क्या किया है।"
C	येसु ने उत्तर दिया
J	"मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लडते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता। परन्तु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है।"
C	इस पर पिलातुस ने उन से कहा,
M	"तो तुम राजा हो?"
C	येसु ने उत्तर दिया,
J	"आप ठीक ही कहते हैं। मैं राजा हूँ। मैं इसलिये जन्मा और इसलिये संसार में आया हूँ कि सत्य के विषय में साक्ष्य पेश कर सकूँ। जो सत्य के पक्ष में है, वह मेरी सुनता है।"
C	पिलातुस ने उन से कहा,
M	"सत्य क्या है?"
C	वह यह कहकर फिर बाहर गया और यहूदियों के पास आ कर बोला
M	"मैं तो उस में कोई दोष नहीं पाता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिये पास्का के अवसर पर एक बन्दी को रिहा करने का रिवाज है। क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिये यहूदियों के राजा को रिहा कर दूँ?"
C	इस पर वे चिल्ला उठे,
CR	"इसे नहीं, बराब्बस को"।
C	बराब्बस डाकू था। तब पिलातुस ने येसु को ले जा कर कोड़े लगाने का आदेश दिया। सैनिकों ने काँटों का मुकुट गूँथ कर उनके सिर पर रख दिया और उन्हें बैगनी कपडा पहनाया। फिर वे उनके पास आ-आ कर कहते थे
CR	"यहूदियों के राजा प्रणाम!"
C	और वे उन्हें थप्पड़ मारते जाते थे। पिलातुस ने फिर बाहर जा कर लोगों से कहा
M	"देखो मैं उसे तुम लोगों के सामने बाहर ले आता हूँ, जिससे तुम यह जान लो कि मैं उस में कोई दोष नहीं पाता"।
C	तब येसु काँटों का मुकुट और बैगनी कपडा पहने बाहर आये। पिलातुस ने लोगों से कहा
M	"यही है वह मनुष्य!"
C	महायाजक और प्यादे उन्हें देखते ही चिल्ला उठे
CR	"इसे क्रूस दीजिये! इसे क्रूस दीजिये!"
C	पिलातुस ने उन से कहा,
M	"इसे तुम्हीं ले जाओ और क्रूस पर चढाओ। मैं तो इस में कोई दोष नहीं पाता।"
C	यहूदियों ने उत्तर दिया,
CR	"हमारी एक संहिता है और उस संहिता के अनुसार यह प्राणदण्ड के योग्य है, क्योंकि इसने ईश्वर का पुत्र होने का दावा किया है।"
C	पिलातुस यह सुनकर और भी डर गया। उसने फिर भवन के अन्दर जा कर येसु से पूछा,
M	"तुम कहाँ के हो?"
C	किन्तु येसु ने उसे उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उन से कहा,
M	"तुम मुझे से क्यों नहीं बोलते? क्या तुम यह नहीं जानते कि मुझे तुम को रिहा करने का भी

	अधिकार है और तुम को क्रूस पर चढ़वाने का भी?
C	येसु ने उत्तर दिया,
J	"यदि आप को ऊपर से अधिकार न दिया गया होता तो आपका मुझ पर कोई अधिकार नहीं होता। इसलिये जिसने मुझे आपके हवाले किया, वह अधिक दोषी है।"
C	इसके बाद पिलातुस येसु को मुक्त करने का उपाय ढूँढता रहा, परन्तु यहूदी यह कहते हुये चिल्लाते रहे,
CR	"यदि आप इसे रिहा करते हैं, तो आप कैसर के हितेषी नहीं हैं। जो अपने को राजा कहता है वह कैसर का विरोध करता है।"
C	यह सुनकर पिलातुस ने येसु को बाहर ले आने का आदेश दिया। वह अपने न्यायासन पर उस जगह, जो लिथोस-त्रोतोस, और इब्रानी में गबूबथा, कहलाती है, बैठ गया। पास्का की तैयारी का दिन था। लगभग दोपहर का समय था। पिलातुस ने यहूदियों से कहा,
M	"यही ही तुम्हारा राजा!"
C	इस पर वे चिल्ला उठे,
CR	"ले जाइये! ले जाइए! इसे क्रूस दीजिये!"
C	पिलातुस ने उन से कहा
M	"क्या, 'मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़वा दूँ?"
C	महायाजकों ने उत्तर दिया,
CR	"कैसर के सिवा हमारा कोई राजा नहीं।"
C	तब पिलातुस ने येसु को क्रूस पर चढ़ाने के लिये उनके हवाले कर दिया। वे येसु को ले गये और वह अपना क्रूस ढोते हुये खोपड़ी की जगह नामक स्थान गये। इब्रानी में उसका नाम गोलगोथा है। वहाँ उन्होंने येसु को और उनके साथ और दो व्यक्तियों को क्रूस पर चढ़ाया- एक को इस ओर, दूसरे को उस ओर और बीच में येसु को। पिलातुस ने एक दोषपत्र भी लिखवा कर क्रूस पर लगवा दिया। वह इस प्रकार था- "येसु नाजरी यहूदियों का राजा।" बहुत-से यहूदियों ने यह दोषपत्र पढा क्योंकि वह स्थान जहाँ येसु क्रूस पर चढ़ाये गये थे, शहर के पास ही था और दोष पत्र इब्रानी, लातीनी और यूनानी भाषा में लिखा हुआ था। इसलिये यहूदियों के महायाजकों ने पिलातुस से कहा,
CR	"आप यह नहीं लिखिये- यहूदियों का राजा; बल्कि- इसने कहा कि मैं यहूदियों का राजा हूँ।"
C	पिलातुस ने उत्तर दिया,
M	"मैंने जो लिख दिया, सो लिख दिया।"
C	येसु को क्रूस पर चढ़ाने के बाद सैनिकों ने उनके कपडे ले लिये और कुरते के सिवा उन कपडों के चार भाग कर दिये- हर सैनिक के लिये एक-एक भाग। उस कुरते में सीवन नहीं था, वह ऊपर से नीचे तक पूरा-का-पूरा बुना हुआ था। उन्होंने आपस में कहा,
CR	"हम इसे नहीं फाड़ें। चिट्ठी डालकर देख लें कि यह किसे मिलता है।"
C	यह इसलिये हुआ कि धर्मग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाये- उन्होंने मेरे कपडे आपस में बाँट लिये और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। सैनिकों ने ऐसा ही किया। येसु की माता, उसकी बहिन, क्लोपस की पत्नि मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थीं। येसु ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को, जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा,
J	"भद्रे! यह आपका पुत्र है।"

C	इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा,
J	"यह तुम्हारी माता है"।
C	उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। तब येशु ने यह जान कर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, धर्मग्रन्थ का लेख पूरा करने के उद्देश्य से कहा,
J	"मैं प्यासा हूँ"।
C	वहाँ खड़ी अंगूरी से भरा एक पात्र रखा हुआ था। लोगों ने उस में एक पनसोख्ता डुबाया और उसे जूफे की डण्डी पर रख कर येशु के मुख से लगा दिया। येशु ने खड़ी अंगूरी चखकर कहा,
J	"सब पूरा हो चुका है"।
C	और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिये। (सभी लोग घुटने टेकें) वह तैयारी का दिन था। यहूदी यह नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाये क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्यौहार पडता था। उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया कि उनकी टाँगे तोड़ दी जाये और शव हटा दिये जायें। इसलिये सैनिकों ने आकर येशु के साथ क्रूस पर चढाये हुये पहले व्यक्ति की टाँगे तोड़ दी, फिर दूसरे की। जब उन्होंने येशु के पास आकर देखा कि वह मर चुके हैं तो उन्होंने उनकी टाँगे नहीं तोड़ी; लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उस में से तुरन्त रक्त और जल बह निकला। जिसने यह देखा है, वही इसका साक्ष्य देता है, और उसका साक्ष्य सच्चा है। वह जानता है कि वह सच बोलता है, जिससे आप लोग भी विश्वास करें। यह इसलिये हुआ कि धर्मग्रन्थ का यह कथन पूरा हो जाये- उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जायेगी; फिर धर्मग्रन्थ का एक दूसरा कथन इस प्रकार है- उन्होंने जिसे छेदा, वे उसी की ओर देखेंगे। इसके बाद अरिमथिया के यूसुफ ने जो यहूदियों के भय के कारण येशु का गुप्त शिष्य था, पिलातुस से येशु का शव ले जाने की अनुमति माँगी। पिलातुस ने अनुमति दे दी। इसलिये यूसुफ आ कर येशु का शव ले गया। निकोदेमुस भी पहुँचा, जो पहले रात को येशु से मिलने आया था। वह लगभग पचास सेर का गंधरस और अगरू का सम्मिश्रण लाया। उन्होंने दफन की प्रथा के अनुसार उसे सुगंधित द्रव्यों के साथ छालटी की पट्टियों में लपेटा। जहाँ येशु क्रूस पर चढाये गये थे, वहाँ एक बारी थी और उस बारी में एक नयी कब्र, जिस में अब तक कोई नहीं रखा गया था। उन्होंने येशु को वहीं रख दिया, क्योंकि वह यहूदियों के लिये तैयारी का दिन था और वह कब्र निकट ही थी। यह प्रभु का सुसमाचार है।